

Date: 17.01.2023

To,

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, C-1, Block G,

Bandra Kurla (East)

Mumbai - 400051

BSE Limited

P.J. Towers,

Complex, Bandra (East) Dalal Street,

Mumbai - 400001

Dear Sir/Madam

Ref: NSE SYMBOL: KSOLVES; BSE SCRIP CODE: 543599

Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of SEBI Listing Regulations, we hereby enclose copies of newspaper advertisement published regarding extract of the un-audited consolidated and un-audited standalone interim financial results for the quarter ended December 31, 2022, in following newspapers:

- 1. Business Standard (English)
- 2. Business Standard (Hindi)

The above information is also available on the website of the Company www.ksolves.com.

For Ksolves India Limited

Manisha Kide

Company Secretary and Compliance Officer

PUBLIC NOTICE Before the National Company Law Tribunal, Court V, New Delhi Bench Company PetitionNo. 69/ND/2022 Notice is hereby given to public at large that ve Sh. Hetram, Sh. Parveen S/o Sh. Jitender Living Media India Limited Kumar, Sh. Mukesh all S/o Lt. Sh. Pyare Lal equal share of 1/3 share and Sh. Abhi ramApplicant Compan In the matter of: SECTION 66 READ WITH SECTION 52 OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND RULE 2 OF S/o Balkishan all residents of village Kadipur, lehsil Kadipur, District Gurgaon, the owner of said property described in Schedule THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBLINAL (PROCEDURE FOR REDUCTION OF SHARE CAPITAL OF COMPANY) RULES, 2016

ereinbelow under notice dated 09 10 2022

ve hereby cancelled/terminated the

Collaboration Agreement for the Construction

of Group Housing Colony (Reg. No. 14821)

dtd. 14.09.2012 along with Supplementary Agreement dtd. 15.04.2021, SPA dtd.

19.04.2021, Ikrarnama dtd. 19.04.2021 at the office of Sub-registrar of Assurance, Kadipur,

Tehsil in favor of M/s Aranya Infrastructure

Pvt. Ltd. We were compelled to cancel and terminate the Collaboration Agreement dtd.

15.04.2021 for non-compliance/violation of terms & conditions of the said Agreement for collaboration. We have also sent intimation etter to DTCP, Haryana. Hence DTCP

ismissed the right of said builder to apply

cense for the same. We have intimated to

M/s Aranya Infrastructure Pvt. Ltd. Notice dtd. 09.10.2022. we further inform the public at

arge that not to deal in any arrangement with

he said builder and the same shall not be binding on us. We further inform to the public

at large that we shall be at liberty to deal with

the said property in our own discretion. The property bearing knewat no 197 khatoni no 229 Mustil no. 29, Killa no. 8(8-0), khewat

no 199 khatoni no 231 Mustil no. 29, killa no 1(8-0), killa no 2(8-0), khewat no 200 khatoni

ò 232 Mustil no 29, killa no 3(8-0), 30/22/2

(2-9), 23/1(5-11) total land measuring 40 kanal (05.00 Acres) situated in the Revenue

estate of Gopalpur, Tehsil Kadipur, District Gurugram (hereinabove referred to as "Said

Property") within the limits of Sub-Registrar

District Kadipur & within the local limits of

Advocate, Gurgaon Court (Chamber No. 271A, S.C.A. Block,

Email Id: rohitattri786@gmail.com

 $N \equiv$

NOBLEBANK

District Court, Gu

(Rohit Attri

9716575252

Total Dues: Demand Notice Date and Outstanding Amount:

002 read with proviso to rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

not included earlier in the above mentioned outstanding loan amount.

Last date & time for submission of emd and bid form: 17.02.2023 upto 4:00 P.M.

Description of the Immovable Property with known encumbrances:-

auction Sale before submitting their bids and taking part in the e-auction sale proceedings.

scribed period, the EMD amount will be forfeited and the secured assets will be resold.

heir bid. No claim of whatsoever nature regarding the property put for sale, charges/encun

f the sale without any prior notice or assigning any reason thereof.

2) Mrs. Brinda Devi

(Co-Applicant).

30688310000037

28.08.2020 29.10.2022

382, Khata no. 51, Village Barola, Sector-49, Noida, Tehsil Dadri.

Encumbrances: Not known apart from the above.

Bounded By: As per site plan

orfeited and secured asset will be resold.

fter submission of the online bid.

n the name of the successful bidder.

10.

osts, expenses or any other charges (if any).

Terms of Sale

No: 18001035342

to the extent not included earlier in the above mentioned outstanding loan amount of Possession: Symbolic Possession

set, Amount Due, Reserve price, E-auction date & time, EMD and Bid Increase Amount are mentioned below:

38, Ground Floor, Sector-20, Noida. Mr. Bhagat Singh (Guarantor) R/o F-138, Ground Floor, Sector-20, Noida

All that part and parcel of the residential freehold property situated at Khasra no. Reserve Price: Rs. 1,78,00,000/-382. Khata no. 51. Village Barola, Sector 49. Noide Tabril Ded.

Gurugram.

Date: 17/01/2023

Place : Gurgaor

In the matter of :
LIVING MEDIA INDIA LIMITED
CIN: U92132DL1962PLC003714 A COMPANY INCORPORATED UNDER THE COMPANIES ACT, 1956 HAVING ITS
REGISTERED OFFICE AT F-26, FIRST FLOOR,
CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI-110001 PUBLICATION OF NOTICE

And

NOTICE is hereby given that the Hon'bleNation Company Law Tribunal, Court V at New Delh Bench ("NCLT"), on 22nd Day of December 2022 by the order confirmed and approvedthe eduction of the paid -up share capital of the pove named Petitioner Company by way o writing off the accumulated losses up to Rs 390.88 Crores (Rupees Three Hundred Ninety Crore and Eighty-Eight Lacs only) with the securities premium account amounting to Rs. 357.82 Crores (Rupees Three Hundred Fifty-Seven Crore and Eighty-Two Lacs only) and th balance amount of accumulated losses as on date on which the order approving the petition application is passed, against General Reserve of the Company. This notice is being issued in compliance with the

irections issued in the order dated 22nd Day of For Living Media India Limited

Ashish Sabharwal Date: 16.01.2023 Place : New Delhi Company Secretar



Invitation for Bids (IFB) for Reconductoring package OH01 for (i) Reconductoring of 132kV S/C Loktak (NHPC) – Imphal (POWERGRID) line with HTLS conductor and (ii) Replacement of existing CT of 600-400-220/1 at Loktak HEP end in Loktak-Impha

G2

32kV S/C line with rating commensurate with ampacity (800A) of HTLS conductor Single Stage Two Envelope(SSTE) Bidding Procedure (Funding: Domestic) Date: 17/01/2023 POWERGRID invites online bids through e-portal https://etender.powergrid.in for the

following Pack	kage:		
RFx. No. Tel.	Package Reference	Downloading of Bidding Documents; Cost of Bidding Documents	Deadline for Bid Submission (Soft copy & Hard copy part)
5002002512 0124- 2823335	CC/NT/CON D/DOM/A02 /22/00509/ RFx- 5002002512	Time: up to 1100 Hrs. Document Fee: Rs. 25,000/-	Soft copy part: up to 31.01.2023; Time: up to1100 Hrs. Hard copy part: up to 02/02/2023; Time: up to1100 Hrs.
1 For further	details includ	ling addendum/changes	in hidding program, if any pleas

visit procurement portal https://etender.powergrid.in

The first Envelope (Techno-Commercial part) of the bid shall be opened 30 minutes after the deadline of Bid Submission (Hard copy part).

The complete Bidding Documents are also available on our website http://www.powergrid.in on Government of India's Central Public Procurement Portal (https://eprocure.gov.in) for the purpose of reference only. . The NIT /IFB has already been published on https://etender.powergrid.in portal or

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)
Corp. Office: "Saudamini", Plot No. 2, Sector-29, Gurugram- 122001 (Haryana), Tel.:-0124-2571700-719 Reg. Office: B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016, Tel.:-011-26560112, 2656012 www.powergrid.in, CIN: L40101DL1989GOI038121

A Maharatna PSU

NOBLE CO-OPERATIVE BANK LTD.

HEAD OFFICE: Raghunathpur, MP-1 Road, Sec-22 Noida.

Phone: 0120-4503015, e-mail: ncblnoida@gmail.com)

Reserve Price, EMD, Bid Increase

Bid Increase Amount: Rs. 50.000/- (Fift

(One Crore Seventy Eight Lakhs) EMD: Rs. 18,00,000/- (Eighteen Lakhs)

E-AUCTION SALENOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

APPENDIX-IV-A (See proviso to rule 8(6) also read with rule 9(1)

F-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Asset under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgages

Name & Address of Borrower/Guarantor: Loan account: M/s. Yash Construction & Patanjali Store: Propreitor Yashpal Singh (Borrower) R/o F

In loan account TL 9 in the capacity of borrower: As on 31stDec. 2022Rs, 91.05.469/- (Ninety One Lakhs Five Thousand Four Hundred Sixty Nin

Only) + further applicable simple interest + penal interest + legal charges + recovery charges + miscellaneous charges and other expenses to the exten

In loan account CC 4 in the capacity of borrower: As on 31st Dec. 2022Rs. 39.73.593/- (Thirty Nine Lakhs Seventy Three Thousand Five Hundred

Ninety Three Only) + further applicable simple interest + penal interest + legal charges + recovery charges + miscellaneous charges and other expension

Theauctionsalewill be 'Online E-Auction/ Bidding' through website https:// Sarfaesi.auctiontiger.net also on Auctiontiger Mobile App on 18.02.2023

Intending bidders shall hold a valid e-mail address. For details, please contact M/s e- procurement Technologies Ltd., Ahmedabad, Contact Persons

- 8000023297, Nitish Jha - 8800896847, e-mail id: delhi@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net. Landline - 079-61200559/595/596. Toll Fred

Bidders are advised to go through the website https://sarfaesi.auctiontiger.net also on Auction tiger mobile app for detailed terms and conditions o

Prospective bidders may avail online training on e-auction from M/s e-procurement Technologies Ltd., Ahmedabad, Contact Person: Ram Prasad

EarnestMoneyDeposit (EMD)shallbedeposited through RTGS/NEFT/Fund Transfer to credit of account no. 9999001004421. Account Name

A Copy of the bid form along with enclosure submitted online (also mentioning UTR No.) shall be forwarded to the Authorised officer. Noble Co

perative Bank Ltd. H.O. Ragunathpur, M.P. Road-1, Sector-22, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar or soft copies be forwarded by email to recovery@noblebank.i

The bid price to be submitted shall be above the reserve price and bidders shall improve their further offer in multiples of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand)
The successful bidder shall have to pay 25% of purchase amount (including Earnest Money already paid), on the closure of the e-auction sale proceedings within

24 hours of the sale in the same mode as stipulated in clause -6 above. In case of default in payment of remaining amount of 25% of bid amount within the

The balance 75% of bid amount shall have to be paid within '15' days of acceptance/confirmation of sale conveyed to them by the secured creditor in the same

The property is to be sold on "As Is Where Is" and "As Is What It Is" condition and the intending bidders should make discreet enquiry as regard any claim,

narges on the properties of any authority, besides the Bank's charges and should satisfy themselves about the title, extent, quantity of the property before submitting

yable to government, taxes and rates (both existing and the once that might arise in future relating to the said property). The sale certificate will be issued only

f the property, please contactour Head Office at phone no. 0120-4503010, 0120-4503013.

13. For any further details contact the Authorised Officer, Recovery Department, Noble Co-operative Bank Ltd., H.O. Raghunathpur, M.P. Road-1, Sector-22, Noida.

The EMD of unsuccessful bidder will be returned within 7 days from the date of auction and the bidder will not be entitled to claim any interest

The sale is subject to confirmation by Bank. If the borrower/guarantor pays the amount due to the Bank in full before date of sale, no Sale will be conducted

The Undersigned has absolute right and discretion to accept or reject any bid or adjourn/ postpone/cancel the sale or modify any terms and condition

The purchaser shall bear the stamp duties charges (including those of sale certificate issued by the Bank), registration charges, all statutory du

The intending purchasers can inspect the property with prior appointment at his/her expenseson the time and date mentioned above. For inspectic

node as stipulated in clause -6 above. In default in payment of the remaining 75% of the bid amount within the prescribed period, the amount deposited will be

rom 03.00 PM to 04.00 PM, with unlimited extensions of ten minutes duration each. The secured asset will not be sold below the reserve price

8000023297, Nitish Jha - 8800896847. e-mail id: delhi@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net. Landline - 079-61200559/595/596

Bids shall be submitted through online procedure only in the prescribed format with relevant details.

SARFAESI E-AUCTION, Noble Co-operative Bank Ltd., IFSC Code: YESB0NCB001, before submitting bid online.

the Secured Creditor, the symbolic possession of which has been taken by the Authorized Officer of Noble Co-operative Bank Ltd. (i.e. the Secured Creditor)

vill be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" for recovery of below mentioned amount. The details of Borrower, Guarantor, secured

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2) SCO 33-34-35, 1st Floor, Sector 17-A, Chandigarh nal space allotted on 3rd & 4th Floor also

Summons under Sub-Section (4) of Section 19 of the Act, read with Sub-Rule (2A) of

Rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993. Exh. No.: 14279 **CORPORATION BANK**

SAVERA EDUCATIONAL TRUST (1) Savera Educational Trust

M/s Savera Educational Trust, Helimandi Road, Farrukhnagar, Tehsil and District Surgaon, through its Trustee Ishpal Bhardwai. (2) Ishpal Bhardwaj, Trustee, M/s Savera Éducational Trust, House No. 6B, DDA Flats New Friends Colony, Near Gurdwara Taimoornur, New Delhi.

(3) Sangeeta Bhardwaj, House No. 6B, DDA Flats, New Friends Colony, Near Gurdwara

SUMMONS

WHEREAS, OA/2074/2018 was listed before Hon'ble Presiding Officer / Registrar on

WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons / notice on the said Application under Section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts o Rs. 24,62,101/- (application along with copies of documents etc. annexed). n accordance with Sub-Section (4) of Section 19 of the Act, you, the defendants are

(i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for

should not be granted; (ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application:

(iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such othe assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties;

(iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and / or othe assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal;

(v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets of other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security

You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 21.03.2023 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence

Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date 07.11.2022. Signature of the Officer Authorised to issue summons

Debts Recovery Tribunal, Chandigarh (DRT 2)

Corp off.: 716-717, 7th Floor, Tower B, World Trade Tower, Sector 16, Noida, 201301, U.P., Ph.: +91 120 4290650/52/53/54/55, Email: info@cslfinance.in Legal@cslfinance.in., Web.: www.cslfinance.in, CIN: L74899DL1992PLC051462

availed the financial assistance from CSL Finance Limited (CSL). We state that despite having availed the financial assistance, the Borrower/Guarantor(s) Mortgagor(s) (all singularly or together referred to as "Obligors") have committed various defaults in repayment of interest and principal amounts as per due dates. The account has been classified as Non Performing Asset on the respective dates mentioned hereunder, in the books of CSL, consequent to the Authorized Officer of CSL under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice on respective dates mentioned berein below under Section 13(2) of SARFAESI Act, 2002 calling upon the Obligors and/or their Legal Heir(s)/Legal Representative(s), to repay the amount mentioned in the notice together with further interest at the contractual rate on the amount mentioned in the notices and incidental expenses, cost, charges etc. until the date of payment within 60 days from the date of receipt of notices.

S. No	Legal Representative(s)	dues	Events
1.	LAN: SMEDELLAPSL0000005000853 Borrower/Security Provider: Mr. Ved Prakash Co-Borrower 1: Ms. Seema Co-Borrower 2: Mr. Rohit Gupta	Rs. 20,17,690/- (Rupees Twenty Lakh Seventeen Thousand Six Hundred Ninety Only) as on 12.01.2023 alongwith future interest, default interest, fee, costs, taxes, and charges, etc.	Date of Loan Agreement: 29.09.2017 Date of NPA 31.03.2021 Date of Demand Notice: 12.01.2023

Description of the Secured Assets/ Immovable Properties/Mortgaged Properties: All that piece and parcel of House No 433 At Plot No 28, Ward No 13, Area Measuring 37 Sg. In The Residential Colony, Teliwara, Gali Mata Wali, Delhi

Boundaries As Per Title Documents: East - Gali, West - Gali, North - Other Property, South - Other Property.

the circumstances as aforesaid, the notice is hereby given to the Obligors and/or

their Legal Heir(s)/Legal Representative(s)

against the above Secured Asset(s)/Immovable Property (ies) under Section 13(4) of the said Act and the applicable Rules entirely at the risk of the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) as to the costs and consequences.

The said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) are prohibited under the said Act to transfer the aforesaid Secured Asset(s)/Immovable Property(ies), whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of CSL Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or Rules made thereunder shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act

Date: 17 01 2023

Sd/- Authorized Officer. CSL Finance Ltd.

Reg. off.: 410-412,18/12, 4th Floor, W.E.A, Arya Samaj

CSL Finance Road, Karol Bagh, New Delhi-110005, Limted

Whereas the Borrower/Guarantor(s)/Mortgagor(s) mentioned hereunder had

The Obligors are hereby informed by way of public notice about the same.

Azad Market New Delhi 110032.

that If the said Obligor(s) shall fail to make payment to CSL, then CSL shall proceed

Place: Delhi

JANA SMALL FINANCE BANK (A scheduled commercial bank)

Registered Office: The Fairway, Ground & First Floor, Survey No.10/1, 11/2 & 12/2B, Off Domlur, Koramangla Inner Ring Road, Next to EGL Business Park, Challaghatta, Bangalore-560071. Branch Office: 16/12, 2nd Floor, W.E.A Arya Samaj Road, Karol Bagh, Delhi-110005.

AUTHORIZED OFFICER Noble Co-operative Bank Ltd.

Date & Time of

03:00 P.M. to 04:00 P.M

E-Auction 18.02.2023 from

E-AUCTION NOTICE

PUBLIC NOTICE FOR SALE THROUGH E-AUCTION UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT (SARFAESI ACT) 2002, READ WITH PROVISO RULE 8(6) & 9 OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002.

The undersigned as authorised officer of Jana Small Finance Bank Limited has taken possession of the following property in exercise of powers conferred under section 13(4) of the SARFAESI ACT. The Borrower is particular and public at large are informed that online auction (e-auction) of the mortgage property in the below mentioned account for realisation of dues of the Bank will be held on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS" on the date as prescribed as here under.

	Sr. No.	Number	Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor	13-2 Notice	Possession	balance as on 13-01-2023	Inspection of the property	INR	Deposit (EMD) in INR	of E-Auction	& Place for Submission of Bid
	1	30688300000050	1) Mrs. Sarita Gupta (Applicant), 2) Mr. Deepak Gupta (Co-Applicant), 3) Mr. Anil (Co-Applicant)	28.08.2020	29.10.2022	Rs.10,24,093/- (Rupees Ten Lakhs Twenty Four Thousand and Ninty Three Only)	21.01.2023 09:00 AM to 05:30 PM	Rs.4,97,587/- (Rupees Four Lakhs Ninety Seven Thousand Five Hundred And Eighty Seven Only)	Rs.49,758/- (Rupees Forty Nine Thousand Seven Hundred AndFifty Eight Only)	02-02-2023 @ 11:00 AM	01-02-2023 before 5:30 PM. Jana Small Finance Bank Limited. Branch Office Address: 16/12, 2nd Floor, W.E.A Arya Samaj Road, Karol Bagh, Delhi-110005.
١		Property Descript	tion/ Schedule: Property bear	ing Flat No.C-	2126, Second	Floor (Without Roof Rig	ht), Tower-17, Blo	ck-15, Dinesh Nagar F	Project, Near Mohalla	Rampura, Near	Pilakhuwa Railway Station, Pilakhuwa,

L		Pargana Dasna, Tehsil Dhaulana, District Hapur, UP. Admeasuring an area of 505 Sq.feet. Owned by Mrs. Sarita, W/o. Mr. Deepak Gupta.											
	2	30688310000011	1) Mr. Rajinder Singh (Applicant), 2) Mrs. Leela Singh (Co-Applicant), 3) Mr. Vikram Singh (Co-Applicant)	28.08.2020	29.10.2022	Rs.10,25,876/- (Rupees Ten Lakhs Twenty Five Thousand Eight Hundred And Seventy Six Only)	to	Rs.4,22,127/- (Rupees Four Lakhs Twenty Two Thousand One Hundred And Twenty Seven Only)	Thousand Two Hundred And	02-02-2023 @ 11:00 AM	01-02-2023 before 5:30 PM. Jana Small Finance Bank Limited. Branch Office Address: 16/12, 2nd Floor, W.E.A Arya Samaj Road, Karol Bagh, Delhi-110005.		
	Property Description/ Schedule: Property bearing Flat No.A-3132, Third Floor (Without Roof Right), Tower-19, Block-18, Dinesh Nagar Project, Near Mohalla Rampura, Near Pilakhuwa Railway Sta Pargana Dasna, Tehsil Dhaulana, District Hapur, UP. Admeasuring an area of 445 Sq.feet. Owned by Mr. Rajinder Singh, S/o. Mr. Narayan Singh.				Pilakhuwa Railway Station, Pilakhuwa,								
	3		1) Mr. Praveen Kumar Sharma (Applicant),			Rs.12,05,430/- (Rupees Twelve Lakh	21.01.2023	Rs.4,21,095/- (Rupees Four	Rs.42,109/- (Rupees Forty Two	02-02-2023	01-02-2023 before 5:30 PM. Jana Small Finance Bank Limited.		

Hundred And Thirty Thousand And Hundred And Nine 11:00 AM 05:30 PM Ninty Five Only) Only) Only) Karol Bagh, Delhi-110005.

Five Thousand Four

09:00 AM

Lakhs Twenty One

Thousand One

@

		` '' '			• /					• .		
ı	Property Description/ Schedule: Property bearing Flat No.C-396, Third Floor (Without Roof Right), Tower-14, Block-5, Dinesh Nagar Project, Near Mohalla Rampura, Near Pilakhuwa Railway Station, Pilakhuwa,											
	Pargana Dasna, Tehsil Dhaulana, District Hapur, UP. Admeasuring an area of 46.93 Sq. meters. Owned by Mr. Praveen Kumar Sharma, S/o. Mr. Hori Lal Sharma.											
4		1) Mr. Rai Kumar			Rs.8,98,967/-	21.01.2023	Rs.4,97,700/-	Rs.49,770/-		01-02-2023 before 5:30 PM.		
		(Applicant), 2) Mrs. Rekha			(Rupees Eight Lakhs	09:00 AM	(Rupees Four Lakhs Ninetv	(Rupees Forty	02-02-2023	Jana Small Finance Bank Limited.		
	30688300000099		01.07.2020	04.11.2022	Ninety Eight Thousand Nine		Seven Thousand	Nine Thousand	@	Branch Office Address: 16/12,		
		3) Mr. Saranvir Singh			Hundred And Sixty	to	Seven Hundred	Seven Hundred	11:00 AM	2nd Floor, W.E.A Arya Samaj Road,		
l		(Co-Applicant)			Seven Only)	05:30 PM	Only)	And Seventy Only)		Karol Bagh, Delhi-110005.		

Property Description/ Schedule: Property bearing Flat No.1148, Type-A, First Floor (Without Roof Right), Tower-21, Block-20, Dinesh Nagar, Near Mohalla Rampura, Situated at NH-24, Pilakhuwa, Pargana Dasna,

Tehsil Hapur, District Ghaziabad, UP. admeasuring an area of 41.35 Sq.meters. Owned by Mr. Raj Kumar, S/o. Mr. Harveer Singh. The properties are being held on "AS IS WHERE IS BASIS" & "AS IS WHAT IS BASIS" and the E-Auction will be conducted 'On Line'. The auction will be conducted through the Bank's approved service provider M/s. e-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger) at the web portal https://janabank.auctiontiger.net. For more information and For details, help, procedure and online training on e-auction, prospective

bidders may contact M/s. e-Procurement Technologies Ltd.; Contact number: 09722778828/ 079-68136854/ 51, 55, 56. E-Mailids: praveen.thevar@auctiontiger.net For further details on terms and conditions to take part in e-auction proceedings and any for any query relating to property please contact Jana Small Finance Bank officers Mr. Rakesh Sharma (Mob No. 7230070463), to the best of knowledge and information of the Authorised Officer, there are no encumbrances on the properties. However the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances.

title of property put on prior to submitting their bid. No conditional bid will be accepted. This is also a notice to the above named Borrowers/ Guarantor's/ Mortgagors about e-auction scheduled for the mortgaged properties The Borrower/ Guarantor/ Mortgagor are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto date interest and ancillary expenses before the date of auction, failing which the property will be sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost. Date: 17.01.2023, Place: Delhi NCR

PUBLIC NOTICE

Public is hereby informed that my client Mr. Munder Singh is the owner of Residential Plot, Khasra no. 1277, Situated Village Patwadi Pargana Tehsil Dadri, Distt Gautam Budh Nagar, U.P-203207(admeasuring 270 sq. yds.) vide registered Gift Deed dated 05.10.2018 executed by Smt. Nirmal Devi in favour of Sh. Munder Singh S/o Late Sh. Lekhraj Singh(vide doc no.19211 book no.1.Vol no.12483,pages no. 109to 134,SR-Dadri-Gautam Budh Nagarjand my client intends to mortgage the same with Fedbank Financial Services Ltd. Anvone having any objections to this Mortgaoe e same with reducink Financial Services L lyone having any objections to this Mortga ay contact the undersigned with specific writt ojections within 7 days(publication d clusive) otherwise it shall be deemed that the

> VARUN PHOGAAT(ADVOCATE Safdarjung Enclave, New Delhi-110029 (07982557892) (varunphogaat@live.com)

FORM NO. 5

DEBTS RECOVERYTRIBUNAL LUCKNOW 600/1 University Road Near Hanuman Setu Temple Lucknow-226007 (Area of Jurisdiction- Part of Uttar Pradesh)

Summons for filing Reply & Appearance by Publication

(Summons to defendant under Section 19(3), of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993)

Original Application No. 400 of 2016 HDFC BANK LIMITED

APPLICANT **VERSUS**

SIRAJ AHMED AND ANOTHER DEFENDANTS

. SIRAJ AHMAD C/O SHABBEER AHMAD R/O H. NO. 41 BILL MAJULLA NAGAR KOTHA NIKAT KEMRI, RAMPUR KEMRI-244901 (U. P.) CHOTEYAHMAD R/O VILLAGE - MAJULLA NAGAR KOTHA NIKAT KEMRI

RAMPUR KEMRI - 244901 (U. P.) In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in Two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons, and thereafter to appear before the Tribunal on <u>09.02.2023</u> at **10:30 A.M.** failing which the

application shall be heard and decided in your absence. Sd/- Registrar Debts Recovery Tribunal, Lucknow

APPENDIX IV [See rule 8 (1)] POSSESSION NOTICE

(for immovable property)

The undersigned being the Authorized Officer of the INDIABULLS HOUSING

FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 07.03.2022 calling upon the Borrowers DEBMALYA BHATTACHARJEE AND SHIUL BHATTACHARJEE to repay the amount mentioned in the Notice being Rs. 20,34,045.59/- (Rupees Twenty Lakh Thirty Four Thousand Forty Five and Paise Fifty Nine only) against Loan Account No. HHLDUB00351363 as or 14.02.2022 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said

The Borrower having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has take symbolic possession of the property described herein below in exercise o powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act reaction (5) of the Act reaction (6) of Section 13 of the Act reaction (7) of Section 13 of the Act reaction (8) of Section 13 of the Act reaction (8) of Section 13 of the Act reaction (9) of Section with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 12.01.2023 The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs.20.34.045.59/ (Rupees Twenty Lakh Thirty Four Thousand Forty Five and Paise Fifty Nine only) as on 14.02.2022 and interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) o Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secure

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Unit No Oak O-2109, On The 21st Floor, Measuring 225.40 Sq, Ft Carpet Area And Total Area 435 Sq. Ft., In Tower-Oak Known As "Paramount Golfforeste Plot No. Bgh-A, Site-C (Housing Extn), Opp Sector Zeta, Surajpur, Greate loida, Noida-201301, Uttar Pradesh.

Place: Greater Noida

Authorized Office INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED



DEPARTMENT OF ENERGY GOVERNMENT OF ODISHA

NOTIFICATION

No. 518/En., Bhubaneswar ENG-THER-OPGC-0004-2019

dt. 13th January. 2023

GLOBAL INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR PROPOSED

DISINVESTMENT OF 49% SHAREHOLDING OF GOVERNMENT OF ODISHA IN ODISHA POWER GENERATION CORPORATION LIMITED. Expression of Interests (EOIs) are hereby invited from Interested Bidders (IBs) for

purchase of 49% shareholding of Government of Odisha in Odisha Power Generation Corporation (OPGC).

OPGC was incorporated on November 14, 1984 with the main objective of establishing, operating & maintaining thermal power generating stations. OPGC operates state of the art thermal power plants of 1740 MW capacity at Banharpali, Jharsuguda, Odisha. The Phase I units (2x210MW) have been running successfully for more than 25 years. The Phase II units (2x660MW) were commissioned in 2019. Phase I units have coal linkage from the nearby mines of Mahanadi Coalfields Limited (Coal India subsidiary) and Phase II units are sourcing coal from Manoharpur Coal Mine of Odisha Coal & Power Limited (OCPL), a subsidiary company of OPGC through dedicated Merry Go Round (MGR) system. OPGC is contemplating expansion of its present capacity through implementation of Phase III by installing Units 5 & 6 having capacity of 660 MW each, OCPL has extractable reserve of 636 Million Metric Tonnes (MMT) and its peak rated capacity is 16 MMT per year, which is sufficient to meet the requirement of 4x660 MW units for more than 40 years. Common infrastructure, land for expansion of plant and the MGR system are in the possession of OPGC.

OPGC is 100% owned by Govt, of Odisha, Govt, of Odisha proposes to undertake disinvestment of 49% of its stake in OPGC in favour of a technically and financially capable entity (Government / Private) having established track record of operating thermal power plants. The Share Holders Agreement (SHA) would have provisions to protect the interest of the minority investor.

The Disinvestment shall be completed in a two-stage process. SBI Capital Markets Limited (SBICAP) is acting as Transaction Advisor for the process. The Preliminary Information Memorandum (PIM) for the Disinvestment can be downloaded from websites of OPGC at www.opgc.co.in, Energy Department, Government of Odisha at www.energy.odisha.gov.in and Transaction Advisor at www.sbicaps.com. Interested Bidders may refer to above websites or contact the Transaction Advisor for further clarification.

Interested Bidders who meet the eligibility criteria mentioned in the PIM, may submit their EOI in physical form in a sealed, covering envelope clearly marked "Private and Confidential – Expression of Interest for the Disinvestment of OPGC" at the address mentioned below, on or before 5:00 PM (Indian Standard Time) of 28th February 2023.

Address for submission of EOI: Mr. Arun Kumar Jain

Senior Vice President & Head Kolkata Regional Office, SBI Capital Markets Ltd.. 9th Floor, Jeevandeep Building, 1, Middleton Street, Kolkata -700071 Contact: 033-2302 3243 OPGC.disinvest@sbicaps.com

> Sd/-Additional Secretary to Government



KSOLVES INDIA LIMITED (CIN: L72900DL2014PLC269020)

Regd. Office: 317/276. Second floor, Lane No. 3, Mehrauli Road, Saidulaiab. Saket, New Delhi, South Delhi-110030, IN

Corp. Office: Parexl Workspaces, B-4, 1st Floor, B Block, Sector 63, Noida, Uttar Pradesh- 201301 Tel No.: +91-8962669996, E-mail : cs@ksolves.com, Website : www.ksolves.com Extract of the unaudited consolidated interim financial results for the quarter ended December 31, 2022

					(Am	ount in Lakns)
Particulars	Quarter	Quarter	Quarter	Year to date	Year to date	Year to date
	ended on	ended on	ended on	figures for	figures for the	figures for the
	31/12/2022	30/09/2022	31/12/2021	year ended on	year ended	previous year
				31/12/2022	31/12/2021	ended
						31/03/2022
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Revenue from operations	2055.20	1850.26	1220.11	5556.69	3284.33	4,706.86
Profit before tax	823.84	802.36	530.25	2335.20	1496.34	2091.43
Profit after tax	617.60	591.59	402.02	1738.40	1147.40	1589.39
Total comprehensive income for the period	614.13	583.53	394.36	1719.38	1138.13	1576.82
Paid up equity share capital (Face value: Rs. 10 per share)	1185.60	1185.60	1185.60	1185.60	1185.60	1185.60
Total reserves (including non-controlling interests)	719.41	638.80	425.94	719.41	425.94	482.02
Earnings per equity share Basic and diluted ()	5.21	4.99	3.39	14.66	9.68	13.41

Extract of the unaudited standalone interim financial results for the quarter ended December 31, 2022

					(Am	ount in Lakhs)
Particulars	Quarter	Quarter	Quarter	Year to date	Year to date	Year to date
	ended on	ended on	ended on	figures for	figures for the	figures for the
	31/12/2022	30/09/2022	31/12/2021	year ended on		previous year
				31/12/2022	31/12/2021	ended
						31/03/2022
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Revenue from operations	2028.13	Unaudited 1826.27	Unaudited 1196.89	Unaudited 5465.44	3175.67	4,534.58
Revenue from operations Profit before tax						
· '	2028.13	1826.27	1196.89	5465.44	3175.67	4,534.58
Profit before tax	2028.13 821.28	1826.27 808.63	1196.89 520.94	5465.44 2366.04	3175.67 1448.46	4,534.58 2029.03

The above is an extract of the detailed format of guarterly un-audited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly un-audited financial results is available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and www.nseindia.com and also on the Company's website

For Ksolves India Limited

Se Loan Account Name of Original Date of Present Outstanding Date & Time of Present Price in Earnest Money Date and Time

Jana Small Finance Bank Limited

Branch Office Address: 16/12. 2nd Floor, W.E.A Arva Samai Road

Place : Delhi

Date : 15.01.2023

Ratan Kumar Srivastava Managing Director

सुप्रीम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफासी ऐक्ट, 2002") की धारा 13 (2) के तहत सूचना

हम, सुप्रीम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के तहत निगमित एक आवास वित्त बैंक कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय वर्तमानतः द्वितीय तल, ब्लॉक-ई, हर्ष भवन, मिडिल सर्किल, कनॉट प्लूेस, नई दिल्ली-110001 (पहले आरडी चैम्बर्स 16/11, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली –110005 में) स्थित है तथा जिसका सीआईएन : यू67190डीएल2014पीएलसी272457 है, एतद्द्वारा आपको वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 13 (2) के तहत सूचना निम्नलिखित सूचना जारी कर रहे हैं, जिसकी विषयवस्तु तदनसार नोट की जाए।

कर्जदार/बंधकदता/गारंटर का नाम एवं पता : 1. दीपक कुमार भगत पुत्र परमेश्वर भगत एच नंबर 167, गली नंबर 7, बिहारी कालोनी, हरेश नगर, तिलपल्त, फरीदाबाद, हरियाणा-121001, फोन नंबर 9560584641, **अन्य पता :** 325, भागर भागर टाउन ग्राम बागर अंचल सिसवान सीवान बिहार—841210. **2. सकंतला देवी** पत्नी परमेश्वर भगत एच नंबर 167 गली नंबर ७. बिहारी कालोनी, हरेश नगर, तिलपल्त, फरीदाबाद, हरियाणा—121001, फोन नंबर 9560584641, **अन्य पता :** 325 भागर, भागर टाउन ग्राम बागर अंचल सिसवान, सीवान, बिहार–841210. **3. अमरजीत कुमार भगत** पुत्र परमेश्वर भगत एच नंबर 167, गली नंबर 7, बिहारी कालोनी, हरेश नगर, तिलपल्त, फरीदाबाद, हरियाणा—121001, फोन नंबर 8512842540. अन्य पता : 325, भागर, भागर टाउन ग्राम बागर अंचल सिसवान, सीवान, बिहार—841210. **4. परमेश्वर भगत** पुत्र तुलवान भगत एच नंबर 167, गली नंबर 7, बिहारी कालोनी, हरेश नगर, तिलपल्त, फरीदाबाद, हरियाणा–121001, फोन नंबर 9654142674. **अन्य पता :** 325, भागर, भागर टाउन ग्राम बागर अंचल सिसवान, सीवान, बिहार—841210.

ऋण खाता संख्या/तिथि : एलएनएचओएफ00217-180000128 **ऋण राशि :** रू. 11,50,000 / – (रूपए ग्यारह लाख पचास हजार मात्र)

13(2) सूचना की तिथि : 19 नवम्बर, 2022 एनपीए तिथि : 10 अक्टूबर, 2022

अधि. की धारा 13(2) के अनुसार मांग सूचना की तिथि और राशि : रू. 11,18,318 / — (रूपए ग्यारह लाख अठारह हजार तीन सौ अठारह मात्र) 14 नवम्बर, 2022 तक बंधक सम्पत्तियां : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति प्लॉट खसरा नंबर 88, खाता नंबर 209, म्यु. नंबर 2, किला नंबर 8 (1-5), 13 (3-8), 14 (3-2), 16 (1-8), 17 (7-14), 23 (1-2), 24 (8-0), 25/1 (2-11), खसरा नंबर 49, खाता नंबर 103, म्यु. नंबर 2, किला नंबर 18 (2–5) वाका मौजा एतमादपुर, तहसील एवं जिला फरीदाबाद, हरियाण

आगे कारणों के आधार पर, हमारा मानना है कि आप मांग सूचना प्राप्त करने से कतरा रहे हैं, अतः यह मांग सूचना प्रकाशित की जा रही है। एतदृद्वारा आपसे **सुप्रीम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड** को उपरोक्त राशि आगे व्याज, लागत, अनुषंगी खर्चों, प्रमारों इत्यादि सहित, इस मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें असफल रहने पर **सुप्रीम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड** द्वारा कर्जदार/रों की सभी अथवा किसी एक अथवा अधिक प्रतिभूत आस्ति के विरूद्ध जक्त अधिनियम की धारा 13(4) के सभी या किसी भी प्रावधान के तहत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें कर्जदार/रों की इस प्रतिभृति आस्ति का कब्जा लिया जाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, आप उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत उपरोक्त प्रतिभूत आस्तियों का बिक्री/पट्ट या अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। कृपया नोट करें कि आगे कोई मांग सूचना जारी नहीं की जाएगी।

स्थान : फरीदाबाद तिथि : 17-01-2023 प्राधिकृत अधिकारी, सुप्रीम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड



होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड

सीआईएनः U65990MH2010PLC240703

वेबसाइटः homefirstindia.com फोन नं.: 180030008425 ई-मेल आईडीः loanfirst@homefirstindia.com

निजी ट्रीटी माध्यम से बिक्री की सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रत्याभृत परिसंपत्तियों की बिक्री – (नियम 8(6) के तहत सूचना)

होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड (होम फर्स्ट) के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने उपर्युक्त अधिनयम की धारा 13(4) के अनुसार आपके द्वारा हमें देय बकाया राशि के संबंध में अनुसूचित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। कृपया नीचे उल्लिखित तारीख के नोटिस का संदर्भ लें जिसमें हमने सूचित किया था कि हमने यथाउल्लिखित आरक्षित मुल्य निर्घारित कर नीलामी सूचना उल्लिखित समाचार पत्र में प्रकाशित कर दी है। नीलामी यथाउल्लिखित तारीख को होना निर्घारित थी। यह नीलामी किसी भी बोलीकार के न होने के कारण सफल न हो सकी।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में यथात्लिखित प्रत्याभूत संपत्ति(याँ) कंपनी की बकाया राशि वसूली के लिए सहमत शर्तों पर "जो है, जहाँ" और "जहाँ है जैसी भी है" आधार पर निजी ट्रीटी माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। अतः उपर्युक्त अधिनियम और इसके नियमों के प्रावधानों के अनुसार हम अनुसूची में उल्लिखित परिसंपत्तियों को वापस लेने हेतु कंपनी की बकाया राशि इस सूचना की तारीख से 15 दिनों के अंदर भुगतान करने के लिए यह सूचना आपको जारी करते हैं, अन्यथा परिसंपत्तियाँ देयताओं को चुकता करने के लिए बिक्री की जायेंगी। यह सुचना उपर्युक्त अधिनियम या प्रभावी अन्य किसी विधि के तहत कंपनी के पास उपलब्ध अन्य किसी अधिकार के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के है। इच्छुक पार्टियाँ अधिक विवरण / स्पष्टीकरण तथा अपने प्रस्ताव जमा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को संपर्क कर सकते हैं। बिक्री सरफासी अधिनियम / नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।

क्र. सं.	स्थान	खाते / जमानती का नाम	संपत्ति/संपत्ति मालिक का विवरण	बकाया राशि मांग सूचना की तारीख को (रु. में)	बिक्री सूचना की तारीख	समाचार पत्र का नाम	ई—नीलामी की तिथि	आरक्षित मूल्य (रु. में)	प्राधिकृत अधिकारी का नंबर
1.	ग्रेटर नोएडा	पवन कुमार, मीरा तिवारी	प्लॉट नं. 1 सी, रॉयल सिटी खसरा नं. 502, ब्लॉक–एस, रॉयल सिटी, गाँव–अछेजा, परगना और तहसील–दादरी, निकट केआरबीएल राइस मिल जी.बी. नगर, उत्तर प्रदेश–203207	6,74,006	29-12-2022	फाईनेंशियल एक्सप्रेस + जनसत्ता	14-01-2023	7,00,000	9650925424
2.	ग्रेटर नोएडा	स्व. गौरव पोरवाल (मृतक), प्रियंका पोरवाल, और गौरव पोरवाल के अन्य कानूनी प्रतिनिधि	प्लॉट नं. ए—156, रॉयल सिटी, खसरा नं. 496, अछेजा, निकट केआरबीएल राइस मिल जी.बी. नगर, उत्तर प्रदेश—203207	6,07,088	29-12-2022	फाईनेंशियल एक्सप्रेस + जनसत्ता	14-01-2023	7,00,000	9650925424
3.	गाजियाबाद	रोहित कुमार, स्वाति त्यागी	फ्लैट–यूजीएफ–02, ब्लॉक–ए, खसरा नं. 13, गिरधरपुर सुनारसी, खसरा नं. 13, एनसीआर ग्रीन सिटी, गाँव–गिरधरपुर सुनारसी, परगना और तहसील–दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201001	16,34,817	29-12-2022	फाईनेंशियल एक्सप्रेस + जनसत्ता	14-01-2023	6,01,250	8957446032
4.	गाजियाबाद	राम प्रबोध झा, रितु झा, रंजू देवी	एसएफ–01, खसरा नं. 399, प्रेम विहार, प्लॉट 74ए, खसरा नं.–399, प्रेम विहार, लोनी, गाजियाबाद, गाजियाबाद–201201	15,11,194	29-12-2022	फाईनेंशियल एक्सप्रेस + जनसत्ता	14-01-2023	5,94,000	8957446032

सरफासी अधिनियम, 2002 के तहत सांविधिक 15 दिनी बिक्री सूचना

कर्जदार / जमानतियों को एतदद्वारा मांग सूचना में उल्लिखित राशि को अद्यतन ब्याज व सहायक व्ययों के साथ इस नोटिस की तारीख से 15 दिन पूर्व भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, अन्यथा संपत्ति की नीलामी /बिक्री की जायेगी और बकाया देय, यदि कोई हों, की ब्याज व लागत सहित वसूली की जायेगी।

हस्ता./- प्राधिकत अधिकारी. होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड स्थानः गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा

फॉर्मु नं. 5 ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ 600 / 1 यूनिवर्सिटी रोड हनुमान सेतु मंदिर के पास, लखनऊ—226007 (क्षेत्राधिकार का क्षेत्र : उत्तर प्रदेश का भाग)

्र **(क्षेत्राधिकार का क्षत्र : उत्तर प्रवरा का जा ज** प्रकाशन के द्वारा उत्तर देने व प्रदर्शित होने के लिए सम्मन **दिनांक : 30**ू**11.2022** ओ.ए. नं. 2022 की 506 ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) की नियमावली 12 व 13 के साथ पठित बैंक व वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली

की धारा 19(3) के तहत प्रतिवादी को सम्मन मूल आवेदन सं. 2022 का 506 ..आवेदक

एचडीएफसी बैंक लि

अशोक कुमार वर्मा

बनाम ...प्रतिवादी

1. अशोक कुमार वर्मा, सी / ओ श्री जय प्रकाश वर्मा निवासी एसएफ–5, उन्नति अपार्टमेंट, 10/2, सेक्टर—3, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद—201005 (उ.प्र.) अन्य पता : अशोक कुमार वर्मा, सी/ओ श्री जय प्रकाश, मैसर्स अशोक एंटरप्राइजेज निवासी सी—27, सेक्टर बी—2, ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद— ...सह—ऋणी 201102 (च.प्र.)

उक्त वर्णित आवेदन में, आपको सम्मन के प्रकाशन के बाद आवेदक या अपने परामर्श / विधिवत प्राधिकृत एजेंट को उसकी प्रति देते हुए इस न्यायाधिकरण में व्यक्तिगत या , अपने विधिवत एजेंट या कानूनी अभ्यासकर्ता के माध्यम से दस्तावेज और हलफनामे (यदि कोई है) के सहित दो सेटों में पेपर बुक फॉर्म में उत्तर देने और उसके बाद 21.03.2023 को सुबह 10.30 बजे न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होना होगा, असफल होने पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई और निर्णय लिया जाएगा ।

हस्ता. 🗸 — रुजिस्ट्रार, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनस

<u>अदालती सूचना</u> आजा से— श्रीमान विवेक सिंह राणा सिविल जज, हरिद्वार न्यायालय सिविल जज. हरिद्वार केनरा बैंक, शाखा- कनखल, द्वारा प्रबन्धक।

दिनांक: 17.01.2023

बनाम श्रीमती कोमल शर्मा पुत्री श्रीमान ब्रह्म शर्मा, निवासी ग्राम- 52/1, गीता भवन भीमगोडा सडक, हरिद्वार-249401

श्रीमान ब्रहम शर्मा पुत्र श्री बलदेव शर्मा निवासी-ग्राम- 52/1, गीता भवन भीमगोडा सडक, हरिद्वार-249401

तहारे मजरिया द्वारा हर खास आम को सुचित किया जाता है कि उपरोक्त वादि ने माननीय न्यायालय में डिक्री वास्ते धन वसुली हेतू वाद दायर किया है। जिसमें दिनांक 28.01.2023 वास्ते आपत्ति / जवाबदाव हेतु नियम हुई है। लिहाजा यह इश्तहार जारी किया है कि जिस किसी को उपरोक्त दरखास्त की बाबत आपत्ति हो वह स्वयं अथवा द्वारा अधिवक्ता वक्त 10 बजे सुबह नियत दिनांक को अदालत में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति पेश करे, वरना उपरोक्त मुलवाद पर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और फिर किसी की आपत्ति का मौका नहीं दिया जायेगा और प्रार्थना पत्र बमुताबिक कानून निस्तारित किया जायेगा।

आज दिनांक 24.12.2022 को मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से जारी किया गया आजा से प्रबन्धक, न्यायालय सिविल जज, हरिद्वार



बैंक ऑफ बडौदा

बी.एम.मार्ग शाखा: 191-आदर्श नगर, भगवान महावीर मार्ग, जालांधर (पंजाब), फोन: 0181 5009731, 32,33, 5019731, 34, ई–मेल : bhajul@bankofbaroda.com

जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

समाज रोड. करोल बाग. दिल्ली—110005

चल और अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु बिक्री सूचना

''परिशिष्ट-IV-ए [देखें नियम 6(2) और 8(6) के परंतुक]'

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, २००२ के नियम ६(२), ८(६) और ९ के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, २००२ के अधीन चल/अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतू ई—निलामी सूचना, आम लोगों को और विशेष रूप से कजदार(रों) और गारंटर(रों) को यह सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का कब्जा, **बँक ऑफ बड़ौदा** के प्रत्याभृत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''**जो है जहां है'', ''जो है जैसा है'' और ''वहां जो कुछ भी है'**' के आधार पर नीचे निम्न वर्णित खातों की बकाया राशि की वसूली हेतु बेचा जाएगा।कर्जदार (रॉ) /बंधककर्ता(ऑ)/ गारंटर(रॉ)/ प्रत्याभूत परिसंपत्तियॉ/ आरक्षित मूल्य / ई—निलामी दिनांक और समय / अग्रिम राशि जमा और बोली वृद्धी राशि नीचे वर्णित है :

क्र. सं.	शाखा का नाम और उधारकर्ता(ओं)/ गारंटर(रों)/बंधककर्ता(ओं)	चल/अचल संपत्ति का विवरण	कब्जे का प्रकार	संपत्ति का प्रकार	कुल बकाया	आरक्षित मूल्य	ईएमडी	न्यूनतम बोली वृद्धि राशि		संपत्ति निरीक्षण की दिनांक और समय
1.	लिमिटेड पंजीकत पता :- 23 वेस्ट	भूमि और भवन (व्यावसायिक संपत्ति) मापक क्षेत्र लगभग ०८ कनाल ०६ मरला (२७२ वर्ग फुट प्रत्येक	कब्जा	व्यावसायिक संपत्ति	रुपये 2,37,88,97.90	रू. 3,09,92,200/–	रू. 30,99,220/–	रू. 20,000/–	28.02.2022 दोपहर 12:00 बज से अर्पाह्न 4:00	केवल
	() \$ ((0 0 ((0)))	मरला), स्थित आबादी, ग्राम रायपुर, रसुलपुर, तहसीत खसरा सं. 93/2, 93//10, 93//1 का संपूर्ण व सर्वा	गीण भाग । सीमा	कन प्रकार :	ब्याज + भगतन व	ही दिनांक तक प्रभ <u>ा</u>	रो और व्ययो		बजे तक तक	नियुक्ति पर
	लिमिटेड., वर्क :- हेमकुंट पब्लिक	पूर्व : स्मिथसन फैक्ट्री; पश्चिम : पठानकोट रोड; उत्तर :	विक्कर सिंह भ	ाथा; दक्षिण : रि	मथसन फैक्ट्री, प	ग्जीकृत मंदीपकौ	र पत्नी मंजीत	ा सिंह के नाम	ा द्वारा वासिका सं. <u>९</u>	9230 दिनांक

स्कूल के पास, ग्राम रायपुर रसुलपुर, 22.03.2017 ग्ठानकोट रोड, तहसील और जिला जालंधर—144012 **(3) श्रीमती मंदीप कौर**, निदेशक मैसर्स आईबीजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 386 न्यू ज्वाहर नगर, गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम के पास, जालंधर—144001 **(4) सुरजीत सिंह** पुत्र बर्चीत सिंह, निदेशक मैसर्स आईबीजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 386 न्यू ज्वाहर नगर, गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम के पास, जालंधर—14400 1

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात् htpps://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm; और https://ibapi.in पर दिए गए लिंक को देखें। एसके अलावा, इच्छुक बोलीदाता प्राधिक अधिकारी: श्री दिलीप कुमार, मोब: 8288097571 से संपर्क करें।

● ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक 27.02.2023 अर्पाह्न 05 : 00 बजे तक ● नीलामी शुरूआत होने की दिनांक और समय : 28.02.2023 दोपहर 12:00 बजे से अर्पाह्न 04:00 बजे तक ● ईएमडी के भुगतान का प्रकार : सिर्फ एनईएफटी (खाता सं. :19600015181219; खाता नाम: बीओबी नो लीन खाता; आईएएससी कोड: बीएआरबीओबीएचएजेयूएल) सरफैसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री सूचना के रूप में माना जा सकता है

दिनांक : 16.01.2023 प्राधिकृत अधिकारी स्थान : होशियारपुर

HDFC BANK

विधिक प्रकोष्त राजेंद्र प्लेस, भूखंड सं ६, सेक्टर-16बी, आवास विकास, सिकंद्रा योजना, आगरा-282007

मांग सूचना
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुगर्निर्माण तथा प्रतिभृति
वित्र प्रवत्त अशिनियम 2002 की बारा 14(2) के अंतर्गति मां सूचना
निम्नितिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने एचडीएफसी बैंक लि. से निम्न वर्णित प्रतिभृत ऋण प्राप्त किए थे। निम्न वर्णित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋणों को उनकी संबंधित संपत्तियों को बंधक रखकर प्रतिभृत किया गया है। चूंकि वे संबंधित ऋण अनुसंबंग के नियमों एवं शर्तों का अनुपादन करने में विश्वत हो चुंकि वे संबंधित ऋण अनुसंबंग के नियमों एवं शर्तों का अनुपादन करने में विश्वत हो चुंकि वे संबंधित ऋण अनुसंबंग के अनुसार मांचि हो मां है आ का अनुसार पत्र वा स्वाप्त के अनुसार एनवीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। इस प्रकार उनकी और से जो बकाया राशियां एवडीएफरसी बैंक को मृताता को जानी हैं, उनका वर्णन निम्नितिखित तालिका में किया गया है तथा उत्तर बकाया राशियों पर लागू अनुसार मांची ब्याज का भी भुगतान किया जाना है और वह उनकी संबंधित तिथियों से प्रमावी होकर प्रमारित होगा।

ऋण	प्राप्त ऋण /	उधारकर्ताओं और सह—उधारकर्ताओं /	13(2) के अनुसार बकाया	परिसंपत्तियों के रूप में	एनपीए
खाता सं	प्रोडक्ट	बंधककर्ता के नाम	राशि / सूचना तिथि	प्रतिभूत संपत्ति के विवरण	की तिथि
50200003	नकद ऋण	 मैसर्स पी के ट्रेडर्स (उधारकर्ता) अपने स्वामी श्री	₹. 33,53,946.16 / -	संपत्ति (मकान नगरपालिका नंबर 258) जो	28-07-22
980452	सुविधा	प्रमोद कुमार जैन पुत्र श्री सुनहरी लाल जैन के	10-11-2022	मोह. नई बस्ती, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	
41646402	व्यवसाय ऋण	माध्यम से। 2. श्री प्रमोद कुमार जैन (सह—उधारकर्ता		283203 में स्थित तथा इस प्रकार परिसीमित है: उत्तर— श्री चंद्र प्रकाश जैन का मकान,	
9116542	बीबीजी डब्ल्यूसी सावधि ऋण जीईसीएल	एवं बंधककर्ता) पुत्र श्री सुनहरी लाल जैन 3. श्रीमती रेणु जैन (गारंटर) द्वारा श्री प्रमोद कुमार जैन, अन्य पता यहां पर भी : श्री प्रमोद कुमार जैन पुत्र श्री सुनहरी लाल जैन	23-11-2022	दक्षिण— द्वार उसके बाद रास्ता गली, पूर्व— श्री शांति लाल गुप्ता का मकान, पश्चिम— गली रास्ता	

कि सुधनाएं आपको उस पते पर प्रेषित की गई वीं जिसमें आप मूल रूप में निवास करते हैं /व्यवसाय संचालित करते हैं /लागाजंन हेतु निजी रूप में कार्य करते हैं। इन उक्त पताँ पर आपको प्रेषित पुनगए हमें बापस नहीं मिलीं, अतः हम इस सुचना को प्रकाशित करने के लिए बाय-विवश हैं। आपको एतदहारा उपरोक्ता ओवियम की चारा 15/2 के अंतर्गत इस सुचना के 60 दिवसों के अंदर उपप्रे जिंत मुश्तान-वार्तियों का निर्वतन करने यानी ककाय मोहियों का इन वार्तियों पर संबोद्धा विविधों से आया को संविदागत दर पर आकलित आया और अप्य लागतों, सुन्ती, हस्वादि के साथ अप एते हमें हमें हमें करने में विकल रहने पर वैंक उपरोक्त अधिनियम की घारा 15(4) के अंतर्गत समस्त अधवा किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह सूचना भी दी जाती है परोक्त अधिनियम की धारा 13(13) के निबंधनों के अनुसार, आप उपर्युक्त प्रतिमृत परिसंपत्तियों को विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरित नहीं कर सकेंगे कृते एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 17-01-2023, स्थान : आगरा

दिनांकः 15.01.202

▲ ★ KSOLVES

2

3

4

केसॉल्वस इंडिया लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 317/276, दूसरा तल, लेन नं. 3, महरौली रोड, सैदुलाजाब, साकेत, नई दिल्ली साउथ दिल्ली-110030, भारत

परेक्सल वर्कस्पेस, बी-4, प्रथम तल, बी ब्लॉक, सेक्टर 63 नोएडा, उत्तर प्रदेश-20130 फोन नं: +91-8962669996, ई-मेल: cs@ksolves.com, वेबसाइट: www.ksolves.com 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित समेकित अंतरिम वित्तीय परिणामों का सार

विवरण	31.12.2022 को समाप्त तिमाही	30.09.2022 को समाप्त तिमाही	31.12.2021 को समाप्त तिमाही	31.12.2022 को समाप्त वर्ष के लिए ईयर टू डेट आंकड़े	31.12.2021 को समाप्त वर्ष के लिए ईयर टू डेट आंकड़े	31.03.2022 को समाप्त पूर्व वर्ष के लिए ईयर टू डेट आंकड़े
	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
प्रचालनों से राजस्व	2055.20	1850.26	1220.11	5556.69	3284.33	4,706.86
कर पूर्व लाभ	823.84	802.36	530.25	2335.20	1496.34	2091.43
कर पश्चात लाभ	617.60	591.59	402.02	1738.40	1147.40	1589.39
अवधि के लिए कुल समग्र आय	614.13	583.53	394.36	1719.38	1138.13	1576.82
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्यः रु. 10 प्रति शेयर)	1185.60	1185.60	1185.60	1185.60	1185.60	1185.60
कुल आरक्षित (गैर–नियंत्रक ब्याजों सहित)	719.41	638.80	425.94	719.41	425.94	482.02
अर्जन प्रति इक्टिवी शेयर बेसिक और डायल्यूटेड ()	5.21	4.99	3.39	14.66	9.68	13.41

31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित एकल अंतरिम वित्तीय परिणामों का सार

विवरण	31.12.2022 को समाप्त तिमाही	30.09.2022 को समाप्त तिमाही	31.12.2021 को समाप्त तिमाही	31.12.2022 को समाप्त वर्ष के लिए ईयर टू डेट आंकड़े	31.12.2021 को समाप्त वर्ष के लिए ईयर टू डेट आंकड़े	31.03.2022 को समाप्त पूर्व वर्ष के लिए ईयर टू डेट आंकड़े
	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
प्रचालनों से राजस्व	2028.13	1826.27	1196.89	5465.44	3175.67	4,534.58
कर पूर्व लाभ	821.28	808.63	520.94	2366.04	1448.46	2029.03
कर पश्चात लाभ	613.21	597.33	398.73	1768.78	1108.64	1543.95
अवधि के लिए कुल समग्र आय	609.74	589.27	391.08	1749.76	1099.37	1531.38
1	***					

ऊपर सेबी (सचीबद्ध दायित्व और अन्य प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली. 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में पेश किए गए तिमाही अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। तिमाही अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) और (www.nseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट www.ksolves.com पर उपलब्ध है।

> बोर्ड के आदेशानस हिते केसॉल्वस इंडिया लिमिटेड रतन कुमार श्रीवास्तव

जन स्मॉल फाइनेस बैक (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

2) श्रीमती लीला सिंह

(सह—आवेदक)

पंजीकृत कार्यालयः दि फेयरवे, भूतल और प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ दोमलुर, कोरामंगला इनर रिंग रोड, नेक्स्ट टू ईजीएल बिज़नेस पार्क, चल्लाघट्टा, बैंगलोर-560071, शाखा कार्यालयः 16/12, दुसरा तल, डब्ल्यु.ई.ए., आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

₹. 42,212/-

नीलामी सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफासी अधिनियम), 2002, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) और 9 के साथ पठित, के तहत ई—नीलामी माध्यम से बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकत अधिकारी ने सरफासी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार और साधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक की बकाया की वसूली के लिए अधोल्लिखित खाते में बंधक संपत्ति की **ऑनलाइन नीलामी (ई—नीलामी)** निम्नवत् यथानिर्धारित तिथि पर **"जैसी हैं, जहाँ हैं" और "जहाँ है, जो** भी हैं' आधार पर आयोजित की जायेगी।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	नूस कावार/ सह—कर्जदार/ जमानती का नाम	13(2) सूचना की तारीख	कब्जे की तारीख	दिनांक 13.01.2023 को	की तारीख और समय	मूल्य (रु. में)	जमा (ईएमडी) (रु. में)	ई—नीलामी की तारीख व समय	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय और स्थान
1		1) श्रीमती सरिता गुप्ता			⊽. 10,24,093 ∕−	21.01.2023	च. 4,97,587 ∕−	⊽. 49,758 ∕ –	02.02.2023	01.02.2023 समय अप. 5:30 पूर्व तक जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
	30688300000050	(आवेदक) 2) श्री दीपक गुप्ता (सह—आवेदक)	28.08.2020	29.10.2022	(रुपये दस लाख	समयः	(रुपये चार लाख	(रुपये उनचास हजार	@	शाखा कार्यालय पताः
		\			चौबीस हजार	पूर्वा. 09:00 से		सात सौ अठावन मात्र)	पूर्वा. 11:00	16/12, दूसरा तल, डब्ल्यू.ई.ए आर्य
		3) श्री अनिल (सह–आवेदक)			तिरानवे मात्र)	अप. 05:30 तक	सौ सतासी मात्र)	,		समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली—110005
Ī	संपत्ति विवरण/अनुसुधीः श्रीमती सरिता, पत्नी श्री दीपक गुत्ता द्वारा स्वामित्व संपत्ति पलैट नं. सी-2126, दूसरा तल (छत अधिकार रहित), टॉवर-17, ब्लॉक-15, दिनेश नगर प्रोजैक्ट, निकट मोहल्ला रामपुरा, निकट पिलखुवा रेलवे स्टेशन, पिलखुवा									

परगना डासना, तहसील धौलना, जिला हापुड, उत्तर प्रदेश, माप एरिया 505 वर्ग फुट। 01.02.2023 समय अप. 5:30 पर्व तक 1) श्री राजिन्दर सिंह (आवेदक) 21.01.2023 ড. 10.25.876 ∕ – ⊽.4.22.127/-

30688310000011	(सह-आवेदक) 3) श्री विक्रम सिंह (सह-आवेदक)	28.08.2020	29.10.2022	पच्चीस हजार आठ सौ छिहत्तर मात्र)	पूर्वा. 09:00 से अप. 05:30 तक	बाईस हजार एक सौ सत्ताईस मात्र)	(रुपये बयालीस हजार दो सौ बारह मात्र)	@ पूर्वा. 11:00	शाखा कार्यालय पताः 16 / 12, दूसरा तल, डब्ल्यूईए आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली—110005
संपत्ति विवरण/अनुसूची: श्री राजिंदर सिंह, पुत्र श्री नारायण सिंह द्वारा स्वामित्व संपत्ति पलैट नं. ए-3132, तीसरा तल (छत्त अधिकार रहित), टॉवर-19, ब्लॉक-18, दिनेश नगर प्रोजैक्ट, निकट मोहल्ला रामपुरा, निकट पिलखुवा रेलवे स्टेशन, पिलखुवा परगना डासना, तहसील धौलना, जिला हापुड, उत्तर प्रदेश, माप एरिया 445 वर्ग फुट।									
	1) श्री प्रवीण कुमार शर्मा			₹. 12,05,430 /-	21.01.2023	₹. 4,21,095/-	ড. 42.109 ∕ −	02 02 2023	01.02.2023 समय अप. 5:30 पूर्व तक

(रुपये बारह लाख पाँच 30688310000037 शाखा कार्यालय पताः (सह—आवेदक) (रुपये बयालीस हजार हजार चार सौ तीस इक्कीस हजार पिचानवे पूर्वा. 11:00 16/12, दूसरा तल, डब्ल्यू.ई.ए आर्य 3) श्री मनोज कमार एक सौ नौ मात्र) मात्र) अप. 05:30 तक मात्र) समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली—11000! (सह—आवेदक)

संपात विवरण/अनुसूचाः आ प्रवाण कुमार शमा, पुत्र आ हारो लाल शमा द्वारा स्वामत्व संपात्त पलट न. सा—396, तासरा तल (छत्त अधिकार राहत्), टावर—14, ब्लाक—5, दिनश नगर प्राजक्ट, निकट महिल्ला रामपुरा, निकट पिलखुवा रलव स्टशन, पिलखुवा परगना डासना, तहसील धौलना, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश, माप एरिया 46.93 वर्ग मीटर।									
	 श्री राज कुमार (आवेदक) श्रीमती रेखा देवी 	01.07.2020		₹. 8,98,967/-	(रुपये आठ लाख समयः (रुपये चार लाख (रुपये उनचास हजार @	02.02.2023	01.02.2023 समय अप. 5:30 पूर्व तक जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड		
30688300000099	(सह—आवेदक)		04.11.2022	(रुपये आठ लाख अठानवे हजार नौ सौ		` .	(रुपये उनचास हजार		शाखा कार्यालय पताः
	अ) श्री सरनवीर सिंह (पर अप्रेटक)			अठानव हजार ना सा सङ्सट मात्र)	अप. 05:30 तक	सत्तानवे हजार सात सौ मात्र)	सात सौ सत्तर मात्र)	पूर्वा. 11:00	16/12, दूसरा तल, उब्ल्यू.ई.ए आर्य

संपत्ति विवरण/अनुसूचीः श्री राज कुमार, पुत्र श्री हरवीर सिंह द्वारा स्वामित्व संपत्ति पलैट नं. 1148, टाईप-ए, प्रथम तल (छत अधिकार रहित), टॉवर-21, ब्लॉक-20, दिनेश नगर प्रोजैक्ट, निकट मोहल्ला रामपुरा, एनएच-24, पिलखुवा, परगना डासन तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, माप एरिया 41.35 वर्ग मीटर। संपत्तियाँ **"जैसी हैं. जहाँ हैं" और "जहाँ हैं. जो भी हैं'** आधार पर बिक्री की जा रहीं हैं और ईं-नीलामी **'ऑनलाइन'** की जायेगी। नीलामी वेब पोर्टल https://ianabank.auctiontiger.net पर अनुमोदित सेवा प्रदाता **मेसर्स ई-प्रक्यारमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेड**

(नीलामी टाईगर) के माध्यम से की जायेगी। अधिक जानकारी और अधिक विवरण ई—नीलामी पर सहायता. प्रकिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावी निविदाकार मेसर्स ई—प्रक्योरमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेड, संपर्क नंबर, 09722778828 / 079—88136854 / 51 55, 56, ई-मेल आईडीः praveen.thevar@auctiontiger.net को संपर्क कर सकते हैं। ई-नीलामी कार्यवाही में भाग लेने के निबंधन व शर्तों के अधिक विवरण और संपुत्ति से संबंधित किसी प्रश्न के जबाव के लिए कपया **जन स्मॉल फाइनेंस बैंक अधिकारी श्री राकेश शर्मा (मोबाइल नं, 7230070463)** को संपूर्क करें। प्राधिकत अधिकारी की जानकारी एवं ज्ञान में संपत्ति पर कोई भार नहीं है। हालांकि इच्छक बोलीकारी बोली जमा करने से पर्व नीलामी की जाने वाली संपत्ति पर किसी भी प्रकार के भार, संपत्ति पर हक आदि की अपनी स्वतंत्र जांच–पडताल कर लें। सशर्त कोई भी बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। यह बंधक संपत्तियों के लिए अनुसूचित ई—नीलामी के संबंध में उपरोक्त नामित कर्जदारों / जमानती /बंधककर्ताओं को एक नोटिस भी है। कर्जदार / जमातनी /बंधककर्ता को उपरोक्तानुसार राशि को नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन व्याज

और प्रासांगिक व्ययों सहित भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, अन्यथा संपत्ति की बिक्री की जायेगी और शेष बकाया राशि यदि कोई हो, की ब्याज व लागत सहित वसूली की जायेगी। दिनांकः 17.01.2023, स्थानः दिल्ली एनसीआर हस्ता. / – प्राधिकृत अधिकारी, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड